



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 1977/माघ 2, 1898
N^o. 18] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 22, 1977/MAGHA 2, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd January 1977

No. 1/2/76-AD.C—Under the Resolution No. 1/14/74-AD.C dated the 19th June, 1975, the Government in the Ministry of Commerce reconstituted the Advisory Council on Trade for a tenure of two years with effect from 1st January, 1975. The tenure of the members of the Advisory Council having expired, Government in the Ministry of Commerce have now decided to reconstitute the Council for a further period of two years with effect from 1st January, 1977

2 The functions of the Council shall be —

(i) To review the performance of the country's economy in its commercial aspects.

(ii) To consider —

(a) the problems relating to the expansion of exports;

(b) the problems relating to the regulation of imports;

(c) the operation of Import and Export Trade Controls,

(d) the working of commercial services with particular reference to export marketing and export assistance;

(e) the organisation and expansion of the export sector of the economy.

3. The Council will include the representatives of some of the principal commercial organisations in the country and its composition will be as indicated in the Schedule to this Resolution. The meetings of the Council will be presided over by the Minister of Commerce and in his absence by the Deputy Minister of Commerce. The members will hold office for a period of two years (i.e. with effect from 1st January, 1977 to 31st December, 1978) at the end of which the Council will be reconstituted.

4. The Council shall have powers to co-opt members not exceeding five

5. The Chairman may also invite (specially) to the meetings such other persons as may be considered necessary from time to time.

6. The Council will ordinarily meet twice a year.

7. The Headquarters of the Council will be in New Delhi, but it may meet at any place in India

8. The Council will have the Chief Controller of Imports and Exports as its Member-Secretary. He will be assisted in the discharge of his duties by the Director/Deputy Secretary incharge of the Export Policy Section of the Ministry of Commerce

SCHEDULE

I—Members of the Advisory Council on Trade

1. Minister of Commerce—Chairman
2. Deputy Minister of Commerce—Deputy Chairman

II—Members of Parliament

(These names will be notified later)

III—Commercial & Industrial Organisations

3. President, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, New Delhi-110001
4. President, Associated Chambers of Commerce and Industry, New Delhi.
5. President, All India Manufacturers' Organisation, Bombay-1.
6. Chairman, All India Importers' Association, Bombay-1.
7. President, Film Federation of India, Bombay-6
8. President, National Alliance of Young Entrepreneurs, New Delhi
9. President, Federation of Indian Mineral Industries, New Delhi
10. President, Indian Jute Mills Association, Calcutta-1
11. President, Federation of Indian Export Organisations, New Delhi
12. Chairman, Foreign Exchange Dealers' Association of India, Bombay-1.
13. President, Federation of Associations of Small Industries of India, New Delhi
14. Chairman, East India Cotton Association, Bombay-2
15. Chairman, Indian Cotton Mills Federation, Bombay-1.
16. Chairman, All India Shippers' Council, New Delhi-1
17. President, Association of Merchants & Manufacturers of Textile Stores & Machinery (India), Bombay-1.
18. President, Indian Merchants' Chamber, Bombay
19. President, Association of Indian Engineering Industries, Calcutta.
20. Chairman, Consultative Committee of Plantation Associations, Calcutta-1

21. President, Iron, Steel & Hardware Merchants' & Manufacturers' Chamber of India, Bombay.
22. The All India Automobile & Ancillary Industries Association, Bombay
23. Indian National Ship Owners' Association, Bombay.
24. Indian Banks' Association, Bombay
25. Indian Drugs Manufacturers' Association, Bombay
26. Indian Chemical Manufacturers' Association, Calcutta
27. Sea Food Exporters' Association of India, Cochin.
28. Chairman, Textile Machinery Development Council, Coimbatore
29. Indian Institute of Packaging, Bombay.
30. Electronics Council of India, New Delhi

IV—Non-official Individual Members

31. Shri B. Nehru, Bombay
32. Shri S. L. Kirloskar, Poona
33. Shri B. D. Garware, Bombay.
34. Shri Nushi N. Wadia, Bombay
35. Shri K. N. Modi, Modinagar.
36. Shri T. S. Santhanam, Madras.
37. Shri D. C. Kothari, Madras.
38. Shri M. Somappa, Bangalore
39. Shri Raunaq Singh, New Delhi
40. Shri V. Sadasivam, Madras.
41. Shri Hafizur Rahman.
42. Shri K. Eswaran, Madras.
43. Dr. G. H. Singhania, Kanpur
44. Dr. T. N. Srinivasan, New Delhi
45. Shri Charanjit Singh.
46. Capt. Vasudeva, New Delhi.
47. Shri Jagdish Goenka

V—Public Sector Organisations

48. Chairman, State Trading Corporation of India Ltd., New Delhi
49. Chairman, Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd., New Delhi.
50. Chairman, Steel Authority of India, New Delhi.
51. Chairman, Projects & Equipment Corporation, New Delhi.
52. Chairman, National Textile Corporation of India, New Delhi.
53. Chairman, Shipping Corporation of India, Bombay
54. Executive Director, Trade Development Authority, New Delhi.
55. Chairman, Cotton Corporation of India, Bombay
56. Chairman, Jute Corporation of India, Calcutta.

VI—Export-Import Advisory Committees

57. Chairman, Export-Import Advisory Committee (Western Zone), Bombay.
58. Chairman, Export-Import Advisory Committee (Southern Zone), Madras.
59. Chairman, Export-Import Advisory Committee (Eastern Zone), Calcutta.
60. Chairman, Export-Import Advisory Committee (Northern Zone), New Delhi

VII—Commodity Boards

61. Chairman, All India Handloom Board, Bombay.
62. Chairman, Central Silk Board, Bombay
63. Chairman, All India Handicrafts Board, New Delhi
64. Chairman, Coffee Board, Bangalore
65. Chairman, Coir Board, Cochin
66. Chairman, Tea Board, Calcutta.
67. Chairman, Tobacco Board, Guntur

VIII—Export Promotion Councils.

68. Chairman, Chemicals & Allied Products Export Promotion Council, Calcutta
69. Chairman, Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay.
70. Chairman, Plastics & Linoleums Export Promotion Council, Bombay.
71. Chairman, Silk & Rayon Export Promotion Council, New Delhi
72. Chairman, Sports Goods Export Promotion Council, New Delhi
73. Chairman, Gem & Jewellery Export Promotion Council, Bombay.
74. Chairman, Cashew Export Promotion Council, Ernakulam
75. Chairman, Processed Foods Export Promotion Council, New Delhi.
76. Chairman, Spices Export Promotion Council, Ernakulam.
77. Chairman, Marine Products Export Development Authority, Ernakulam
78. Chairman, Engineering Export Promotion Council, Calcutta
79. Chairman, Wool & Woollen Export Promotion Council, Bombay.
80. Chairman, Basic Chemicals, Pharmaceuticals & Soaps Export Promotion Council, Madras
81. Leather Export Promotion Council, Madras
82. Finished Leather & Leather Manufactures Export Promotion Council, Kanpur.
83. Handloom Export Promotion Council, Madras
84. Groundnut Extractions Export Development Association, Bombay.

IX—Research & Development Organisations

85. Director General, Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi
86. Director General, National Council of Applied Economic Research, New Delhi.

X—Reserve Bank of India & E.C.G.C.

87. Governor, Reserve Bank of India, Bombay.
88. Chairman/Managing Director, Export Credit & Guarantee Corporation Ltd., Bombay.

XI—Ex-officio Official Members

89. Secretary, Ministry of Commerce, New Delhi.
90. Secretary (FT), Ministry of Commerce, New Delhi
91. Secretary (Textiles), Ministry of Commerce New Delhi
92. Additional Secretary, Ministry of Commerce, New Delhi.
93. Secretary, Department of Industrial Development, Ministry of Industry & Civil Supplies, New Delhi
94. Secretary, Department of Heavy Industry, Ministry of Industry & Civil Supplies, New Delhi
95. Secretary, Ministry of Agriculture, New Delhi
96. Secretary, Ministry of Chemicals & Fertilizers, New Delhi
97. Secretary, Department of Power, Ministry of Energy, New Delhi.
98. Secretary, Department of Steel, Ministry of Steel and Mines, New Delhi.
99. Secretary, Planning Commission, New Delhi
100. Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi
101. Secretary, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi
102. Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance, New Delhi
103. Secretary, Ministry of Shipping and Transport, New Delhi.
104. Chairman, Central Board of Excise & Customs, New Delhi.
105. Chairman, Central Board of Direct Taxes, New Delhi.
106. Director General, Technical Development, New Delhi
107. Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi
108. Textile Commissioner, Bombay
109. Jute Commissioner, Calcutta
110. Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi

...Member Secretary.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman, Deputy Chairman, Members of the Advisory Council on Trade, the Private and Military Secretaries to the President, the Prime Minister's Secretariat, the Planning Commission, all Ministries of the Government of India and all the State Governments in India

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. S. GILL,
Chief Controller of Imports & Exports

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1977

सं० 1/2/76-सलाहकार परिषद्.—वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प संख्या 1/14/74—सलाहकार परिषद्, दिनांक 19 जून, 1975 के अन्तर्गत सरकार ने 1 जनवरी, 1975 के 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए व्यापार विषयक सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन किया। सलाहकार परिषद्

के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर अब सरकार ने 1 जनवरी, 1977 से 2 वर्षों की और अवधि के लिए वाणिज्य मंत्रालय में परिषद् को पुनर्गठित करने का निश्चय किया है।

2. परिषद् के ये कार्य होंगे :—

(1) वाणिज्यिक तथ्यों से देश की अर्थ व्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करना।

(2) निम्नलिखित पर विचार करना :—

(क) निर्यात के विस्तार से सम्बन्धित समस्याएं;

(ख) आयात के नियमन से सम्बन्धित समस्याएं;

(ग) आयात-निर्यात व्यापार नियंत्रण का प्रचालन

(घ) विशेष रूप से निर्यात विपणन और निर्यात सहायता के संदर्भ में वाणिज्यिक सेवाओं का कार्य ;

(ङ) अर्थ-व्यवस्था के निर्यात क्षेत्र का संगठन और विस्तार।

3. परिषद् में देश के कुछ मुख्य वाणिज्यिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इसका गठन इस सकल्प की अनुसूची में यथानिर्दिष्ट होगा। परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता वाणिज्य मंत्री द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में उप-वाणिज्य मंत्री द्वारा। सदस्य दो वर्षों (अर्थात् 1 जनवरी, 1977 से 31 दिसम्बर, 1978 तक) की अवधि के लिए सदस्य रहेंगे उसके पश्चात् परिषद् का पुनर्गठन किया जाएगा।

4. परिषद् को अधिकतम पांच सदस्य को सहयोजित करने का अधिकार होगा।

5. अध्यक्ष बैठकों में ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी निर्मन्त्रित (विशेष रूप से) कर सकते हैं जो सबब समय पर आवश्यक समझे जाए।

6. परिषद् की एक वर्ष में साधारणतया दो बैठके होंगी।

7. परिषद् का मुख्यालय दिल्ली में होगा परन्तु इसकी बैठक भारत में किसी स्थान में हो सकती है।

8. मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, परिषद् के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय, के नीति और योजना अनुभाग के कार्यभारी निदेशक/उप-सचिव मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की उनके कार्यों में सहायता करेंगे।

अनुसूची

व्यापार सलाहकार परिषद् के सदस्य

1. वाणिज्य मंत्री:—अध्यक्ष
2. वाणिज्य उप-मंत्री:—उपाध्यक्ष।

2. संसद सदस्य

(इनके नाम बाध में अधिसूचित किए जाएंगे)

3. व्यापारिक तथा उद्योगिक संगठन

3. अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य मंडल एवं उद्योग संघ, नई दिल्ली—110001
4. अध्यक्ष, वाणिज्य एवं उद्योग का सम्बद्ध मंडल, भारत, नई दिल्ली
5. अध्यक्ष, अखिल भारतीय विनिर्माता संघ, बम्बई-1
6. अध्यक्ष, अखिल भारतीय आयातक संघ, बम्बई
7. अध्यक्ष, भारतीय फिल्म संघ, बम्बई-6
8. अध्यक्ष, युवा ठेकेदारों का राष्ट्रीय मंत्री संघ, नई दिल्ली
9. अध्यक्ष, भारतीय खनिज उद्योग संघ, नई दिल्ली-9
10. अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन संघ, नई दिल्ली
11. अध्यक्ष, भारतीय पटसन मिल संस्था, कलकत्ता
12. अध्यक्ष, भारतीय विदेशी मुद्रा प्रदायी संस्था, बम्बई-1 बीआर
13. अध्यक्ष, भारतीय लघु उद्योग संस्था संघ, नई दिल्ली
14. अध्यक्ष, पूर्वी भारत कपास संघ, बम्बई-2
15. अध्यक्ष, भारतीय सूती मिल संघ, बम्बई-1
16. अध्यक्ष, अखिल भारतीय पोत वणिज्य परिषद्, नई दिल्ली-1
17. अध्यक्ष, वस्त्र भंडार तथा मशीन के व्यापारी और विनिर्माणकों की संस्था (भारत) बम्बई-1
18. अध्यक्ष, भारतीय व्यापारी मंडल, बम्बई
19. अध्यक्ष, भारतीय अभियांत्रिक उद्योग संस्था, कलकत्ता
20. अध्यक्ष, रोजगार परामर्शदायी समिति संघ, कलकत्ता-1
21. अध्यक्ष, लोहा, इस्पात तथा लौहपात्र वणिज्य और विनिर्माता मंडल भारत, बम्बई
22. अखिल भारतीय स्वचालित एवं अनुवर्णिक उद्योग संघ, बम्बई

23. भारतीय राष्ट्रिक पोत-शामी संघ, बम्बई
24. भारतीय बैंक संघ, बम्बई
25. भारतीय औषध निर्माणकर्ता संघ, बम्बई
26. भारतीय रसायन निर्माणकर्ता संघ, कलकत्ता
27. समुद्री खाद्य नियन्त्रक संघ, भारत, कोचीन
28. ग्रन्थक्ष, वस्त्र मशीनरी विकास परिषद्, कोयम्बटूर
29. भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, बम्बई
30. भारतीय इलेक्ट्रानिकी परिषद्, नई दिल्ली

4 गैर-सरकारी व्यक्तिगत संस्था

31. श्री बी० नेहरू, बम्बई
32. श्री एस० एल० किलोस्कर, पूना
33. श्री बी० डी० गरवारे, बम्बई
34. श्री नुल्मी एन० धादिया, बम्बई
35. श्री के० एन० मोदी, मोदीनगर
36. श्री टी० एस० सयानम, मद्रास
37. श्री डी० सी० कोठारी, मद्रास
38. श्री एम० सोमप्पा, मंगलोर
39. श्री नैनक सिंह, नई दिल्ली
40. श्री बी० महाशिवम, मद्रास
41. श्री हकीजुर्रहमान
42. श्री के० ईश्वरन, मद्रास
43. डा० जी० एच० सिद्धानिया, कानपुर
डा० टी० एन० श्रीनिवासन, नई दिल्ली
45. श्री चरणजीत सिंह
46. कैप्टन वासुदेव, नई दिल्ली
47. श्री जगदीश गोयन्का

5 सार्वजनिक क्षेत्र संगठन

48. ग्रन्थक्ष, भारत का राज्य व्यापार निगम, लि०, नई दिल्ली
49. ग्रन्थक्ष, भारत का खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि०, नई दिल्ली
50. ग्रन्थक्ष, भारत का इस्पात प्राधिकरण, नई दिल्ली
51. ग्रन्थक्ष, परियोजना एवं उपस्कर निगम, नई दिल्ली

- 52 अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली
- 53 अध्यक्ष, जहाजगती निगम, भारत, बम्बई
- 54 कार्यकारी निदेशक, व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
- 55 अध्यक्ष, कपास निगम, भारत, बम्बई
- 56 अध्यक्ष, भारतीय पटसन निगम, कलकत्ता

6 नियमित-आयात सलाहकार समिति

- 57 अध्यक्ष, नियमित-आयात सलाहकार समिति, (पश्चिमी खंड), बम्बई
- 58 अध्यक्ष, नियमित-आयात सलाहकार समिति, (पूर्वी खंड), बंगलूर
- 59 अध्यक्ष, नियमित-आयात सलाहकार समिति, (दक्षिणी खंड), मद्रास
- 60 अध्यक्ष, नियमित-आयात सलाहकार समिति, (उत्तरी खंड), नई दिल्ली

7 पण्य वस्तु बोर्ड

- 61 अध्यक्ष, अखिल भारतीय हस्त करधा बोर्ड, बम्बई
- 62 अध्यक्ष, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बम्बई
- 63 अध्यक्ष, अखिल भारतीय हस्त शिल्प बोर्ड, नई दिल्ली
- 64 अध्यक्ष, कापी बोर्ड, बंगलूर
- 65 अध्यक्ष, नारियल पेटा बोर्ड, कोचीन
- 66 अध्यक्ष, टी बोर्ड, कलकत्ता
- 67 अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड, कन्नूर

8 नियमित संवर्धन परिषद्

- 68 अध्यक्ष, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद नियमित संवर्धन परिषद्, कलकत्ता
- 69 अध्यक्ष, सूती वस्त्र नियमित संवर्धन परिषद्, बम्बई 1 70
- 70 अध्यक्ष, प्लास्टिक तथा लिनोलियम नियमित संवर्धन परिषद्, बम्बई
- 71 अध्यक्ष, सिल्क तथा रेयन नियमित संवर्धन परिषद्, बम्बई
- 72 अध्यक्ष, खेल-कूद सामग्री नियमित संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली
- 73 अध्यक्ष, रत्न तथा आभूषण नियमित संवर्धन परिषद्, बम्बई
- 74 अध्यक्ष, काजू नियमित संवर्धन, एनीकुलम
- 75 अध्यक्ष, समाधित खाद्य नियमित संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली
- 76 अध्यक्ष, ममाला नियमित संवर्धन परिषद्, एनीकुलम
- 77 अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद नियमित विकास प्राधिकरण, एनीकुलम
- 78 अध्यक्ष, अभियांत्रिक नियमित संवर्धन परिषद्, कलकत्ता

- 79 अध्यक्ष, ऊन तथा ऊन सामान निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई
- 80 अध्यक्ष, मूल रसायन भेषज तथा साबुन निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई
- 81 चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, मद्रास
- 82 तैयार चमड़ा तथा चमड़ा विनिर्माण निर्यात संवर्धन परिषद्, बानपुर
- 83 हस्तकरवा निर्यात संवर्धन परिषद्, मद्रास
- 84 मृगफली म०, निर्यात विकास मस्था, बम्बई

9 अनुसंधान तथा विकास संगठन

- 85 महानिदेशक, विदेश व्यापार का भारतीय सम्थान, नई दिल्ली
- 86 महानिदेशक, सम्बद्ध आर्थिक अनुसंधान का राष्ट्रीय परिषद्, नई दिल्ली

10 भारत का रिजर्व बैंक प्रौर ई० सी० जी० सी०

- 87 उप-गवर्नर, भारत का रिजर्व बैंक, बम्बई
- 88 अध्यक्ष, प्रबन्ध संचालक, निर्यात क्रेडिट तथा गारंटी नियम लि० बम्बई

11 पदेन अधिकारी सदस्य

- 89 सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली
- 90 सचिव, (विदेश व्यापार), वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली
- 91 सचिव (वस्त्र), वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली
- 92 अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली
- 93 सचिव, उद्योग विकास विभाग, उद्योग तथा नागरिक सम्भरण मंत्रालय, नई दिल्ली
- 94 सचिव, भा ी उद्योग विभाग, उद्योग तथा नागरिक सम्भरण मंत्रालय, नई दिल्ली
- 95 सचिव, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली
- 96 सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली
- 97 सचिव, ऊर्जा विभाग, ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली
- 98 सचिव, इस्पात विभाग, इस्पात एवं खनिज मंत्रालय, नई दिल्ली
- 99 सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली
- 100 सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
- 101 सचिव, बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
- 102 सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
- 103 सचिव, जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली
- 104 अध्यक्ष, केन्द्रीय खुंगी आपसी एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली
- 105 अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर, नई दिल्ली

- 106 महानिदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली
- 107 विकास आयुक्त, लघु उद्योग, नई दिल्ली
- 108 पटसन आयुक्त, कलकत्ता
- 109 वस्त्र आयुक्त, बम्बई
- 110 मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली सदस्य-मन्त्रि

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सकल की एक प्रति व्यापार सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यो, राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिवो, प्रधान मंत्री सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और भारत के सभी राज्य सरकारों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए सक्ल को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए० एस० गिल,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
* नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MENTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

